

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश स मा चार

निज सहायकों की भूमिका निर्णायक एवं असाधारण : डॉ. सीतासरन शर्मा

भोपाल, दिनांक 05 दिसम्बर, 2015

शासन प्रणाली की प्रत्येक व्यवस्था में निज सहायकों की भूमिका सदैव निर्णायक एवं असाधारण रही है. कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की कसौटी से होकर निज सहायकों को गुजरना होता है, जिसमें धैर्य और निष्ठा सदैव सर्वोपरि होती है. यह बात विधान सभा अध्यक्ष डॉ.सीतासरन शर्मा ने मध्यप्रदेश विधान सभा सभागार में विधायकों के निज सहायकों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र के अवसर पर कही. डॉ. शर्मा ने रामचरित मानस के विभिन्न प्रसंग एवं उद्धरणों के माध्यम से निज सहायकों की भूमिका की प्रासंगिकता को प्रतिपादित किया.

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो दिवसीय सत्र में संसदीय कार्य-पद्धति, संसदीय आयुध, संवाद कौशल और व्यक्ति विकास वैयक्तिक सहायकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, जनसंपर्क एवं विधायकों की छबि निर्मिती तथा कार्यालयीन प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संस्था निर्माण एवं नेतृत्व अध्ययन केन्द्र मुंबई के निदेशक सहित विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने अपने उद्बोधन दिये.

समापन सत्र के अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा अपने अनुभव भी साझा किये गये. कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन विधान सभा के सचिव श्री ए.पी.सिंह द्वारा किया गया. इस अवसर पर प्रतिभागियों का समूह छायांकन एवं उन्हें प्रमाण-पत्र भी वितरित किये गये.

समाचार

विधान सभा में सर्वदलीय बैठक कल

मध्यप्रदेश विधान सभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसम्बर, 2015 से आहूत किया गया है. विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 2015 को सायं 7 बजे विधान सभा भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. बैठक में सदन के सुचारु कार्य निष्पादन के संबंध में विचार-विमर्श किया जायेगा.

म.प्र./वि.स./ज.स./15

(मुकेश मिश्रा)
सूचना अधिकारी